



भारतीय विद्यालय डारसेट



हिंदी विभाग

पाठ : <u>हामिद खाँ</u>		कार्यपत्रिका की तिथि: -----
संसाधन व्यक्ति: श्रीमती बीना स्टिफन		तिथि:-----
विद्यार्थी का नाम :-----		कक्षा : IX ब
1.	लेखक का परिचय हामिद खाँ से किन परिस्थितियों में हुआ ?	
3.	हामिद पाकिस्तानी मुसलमान था । वह तक्षशिला के पास एक गाँव में होटल चलता था । लेखक तक्षशिला के खंडहर देखने के लिए पाकिस्तान आया तो हामिद के होटल पर खाना खाने पहुँचा । वहीं उनका आपस में परिचय हुआ ।	
2.	'काश में आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता' - हामिद ने ऐसा क्यों कहा ?	
3.	जब लेखक ने यह बताया कि हमारे देश में हिंदु-मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है तथा वहाँ सभी मिल-जुलकर रहते हैं और बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं । भारत में मुसलमानों की पहली मस्जिद का निर्माण भी लेखक के ही राज्य में हुआ था तथा वहाँ कभी भी हिंदु-मुसलमानों के बीच दंगे नहीं होते । यह सब सुनकर हामिद यह कहता है कि काश, मैं आपके मुल्क में आकर यह सब देख सकता । उसके देश में यह सब कुछ नहीं है ।	
3.	हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था ?	
3.	हामिद को लेखक की भेदभाव-रहित बातों पर विश्वास नहीं हुआ । लेखक ने हामिद को बताया कि उनके प्रदेश में हिंदू-मुसलमान बड़े प्रेम से रहते हैं । वहाँ के हिंदू बढ़िया चाय या पुलावों का स्वाद लेने के लिए मुसलमानी होटल में ही जाते हैं । पाकिस्तान में ऐसा होना संभव नहीं था । वहाँ के हिंदू मुसलमानों को अत्याचारी मानकर उन्हें घृणा करते थे । इसलिए हामिद को लेखक की बातों पर विश्वास न हो सका ।	

4.	हामिद खाँ ने खाने का पैसा लेने से इंकार क्यों किया ?	
3.	हामिद खाँ लेखक का प्रेम और भाईचारा देखकर बहुत प्रभावित हुआ । उसने लेखक को अपना मेहमान मान लिया । इसलिए उसने खाना का पैसा लेने से इंकार कर दिया ।	
5.	मालाबार में हिंदू-मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए ।	
3.	मालाबार में हिंदू-मुसलमानों के परस्पर संबंध बहुत घनिष्ट हैं । हिंदूजन मुसलमानों के होटलों में खूब खान-पान करते हैं । वे आपस में मिल-जुलकर रहते हैं । भारत में मुसलमानों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद उन्हीं के राज्य में है । फिर भी वहाँ सांप्रदायिक दंगे (communal riots) बहुत कम होते हैं ।	
6.	तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन-सा विचार कौंधा ? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है ?	
3.	तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनकर लेखक के मन में हामिद के प्रति शुभकामना के भाव उठते हैं । वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि वह उसे सुरक्षित रखे । इससे लेखक की उदारता(gentleness), सद्भावना तथा सांप्रदायिक सौहार्द (communal friendship) का पता चलता है ।	